



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2003]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 2, 2009/अग्रहायण 11, 1931

No. 2003]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 2, 2009/AGRAHAYANA 11, 1931

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2009

का.आ. 3068(अ).—भारत सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की आन्ध्र प्रदेश में संरचनाओं से देश के विभिन्न हिस्सों में उपभोक्ताओं तक प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए मैसर्स रिलायंस गैस ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए ;

और, भारत सरकार को उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसके भीतर उक्त पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

अतः अब, भारत सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उनमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना की प्रतियां साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के भीतर भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उपयोग के अधिकार के अर्जन के संबंध में श्री ए. पी. धोत्रे, सक्षम प्राधिकारी, रिलायंस गैस ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, 14/ब, नीरा पाम सोसायटी, अशोक नगर, विंजापुर रोड, सोलापूर-413004, महाराष्ट्र राज्य को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

तालुका : निलंगा		जिला : लातूर	राज्य : महाराष्ट्र		
गांव का नाम	सर्वे / हिस्सा नंबर	आ.ओ.यु. अर्जित करने के लिए क्षेत्रफल			
		हेक्टेयर	एकर	बि-एकर	
1	2	3	4	5	
1) ममदापूर	112%	00	90	80	
2) हतरगा (हलसी)	34/आ*	00	25	50	
3) हंडाळ	17/क	00	06	20	
तालुका : उमरगा		जिला : उस्मानाबाद	राज्य : महाराष्ट्र		
1) बोरी	119/१	00	23	00	
तालुका : उस्मानाबाद		जिला : उस्मानाबाद	राज्य : महाराष्ट्र		
1) विठ्ठलवाडी	190*	00	34	70	
2) उस्मानाबाद (ग्रामीण)	635/1&	00	65	90	
	619/ऐ	00	03	00	
	616/ऐ&	00	21	10	
	638/1,2%	00	51	40	
	628/1,2%	00	25	20	
	627/1,2,3%	00	51	60	
	454/6	00	15	90	
	620	00	18	40	
तालुका : बार्शी		जिला : सोलापूर	राज्य : महाराष्ट्र		
1) नारी	426/4	00	08	40	
	394	00	08	00	
	396	00	06	00	
2) गोरमाळे	374/4	00	21	60	
	375/3	00	10	30	
3) घोत्रे	286/2	00	03	30	
	294/2	00	08	60	
4) अरणगांव	78/ऐ	00	04	00	
5) जामगांव	121	00	37	30	
6) भोयरे	51/1**	00	50	30	
	78**	00	38	50	
7) शेळगाव (कुळे)	178/8/1	00	07	00	
8) देवगांव	317**	00	24	00	
तालुका : करमाळा		जिला : सोलापूर	राज्य : महाराष्ट्र		
1) करंजे	201/3**	00	20	50	
2) करमाळा	66/5/अ	00	17	45	
	47/3	00	08	00	
	47/2	00	08	00	
	47/4	00	08	00	
3) बांगी	75/1/ब	00	51	20	

1	2	3	4	5
4) रावगांव	450/1	00	89	10

* का. आ. 2582 दिनांक 13.10.2004 में 3(1) की अधिसूचना का अतिरिक्त क्षेत्रफल.

** का. आ. 2790 दिनांक 28.10.2004 में 3(1) की अधिसूचना का अतिरिक्त क्षेत्रफल.

% का. आ. 108(अ) दिनांक 31.01.2007 में 3(1) की अधिसूचना का अतिरिक्त क्षेत्रफल.

& का. आ. 66 दिनांक 07.01.2008 में 3(1) की अधिसूचना का अतिरिक्त क्षेत्रफल.

[फा. सं. एल-14014/4/2006-जी.पी.]

के. के. शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th November, 2009

S.O. 3068(E).—Whereas it appears to Government of India that it is necessary in public interest that for transportation of natural gas from structures in Andhra Pradesh of M/s Reliance Industries Limited to consumers in various parts of the country, a pipeline should be laid by M/s Reliance Gas Transportation Infrastructure Limited;

And whereas, it appears to Government of India that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in land under which the said pipeline is proposed to be laid and which are described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (herein after referred to as the said Act), Government of India hereby declares its intention to acquire the Right of User therein;

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty-one days from the date on which the copies of the notification as published in the Gazette of India under sub-section (1) of Section 3 of the said Act, are made available to the general public, object in writing to the acquisition of Right of User therein for laying the pipeline under the land to Shri D.S. Dhotre, Competent Authority, Reliance Gas Transportation Infrastructure Limited, 14/B, Neera Palm Society, Ashok Nagar, Vijapur Road, Solapur-413004, Maharashtra State.

Schedule

Taluka: Nilanga		District: Latur		State: Maharashtra	
Village	Survey No. / Sub-division No.	Area to be acquired for RoU			
		Hectare	Are	C-Are	
1	2	3	4	5	
1) Mamdapur	112%	00	90	80	
2) Hatanga(Halsi)	34/Aa*	00	25	50	
3) Handral	17/C	00	06	20	
Taluka: Umarga		District: Osmanabad		State: Maharashtra	
1) Borl	119 %	00	23	00	
Taluka: Osmanabad		District: Osmanabad		State: Maharashtra	
1) Vitthalwadi	180*	00	34	70	
2) Osmanabad(Rural)	635/1&	00	65	90	
	619/P	00	03	00	
	616/P&	00	21	10	
	638/1,2%	00	51	40	
	628/1,2%	00	25	20	
	627/1,2,3%	00	51	60	
	454/6	00	15	90	
	620	00	18	40	
Taluka: Barsi		District: Solapur		State: Maharashtra	
1) Nari	426/4	00	08	40	
	394	00	08	00	
	396	00	06	00	
2) Gornale	374/4	00	21	60	
	375/3	00	10	30	
3) Dhotla	286/2	00	03	30	
	294/2	00	08	60	
4) Arangaon	78/P	00	04	00	
5) Jamgaon	121	00	37	30	
6) Bhoira	51/1**	00	50	30	
	78**	00	38	50	
7) Shelgaon(Vhale)	178/8/1	00	07	00	
8) Devgaon	317**	00	24	00	
Taluka: Karmala		District: Solapur		State: Maharashtra	
1) Karanje	201/3**	00	20	50	
2) Karmala	66/5/A	00	17	45	
	47/3	00	08	00	
	47/2	00	08	00	
	47/4	00	08	00	
3) Mangi	75/1/B	00	51	20	

1	2	3	4	5
4) Ravgaon	450/1	00	88	10

* Additional area to 3(1) Notification S.O. 2582 dated 13/10/2004.

** Additional area to 3(1) Notification S.O. 2790 dated 28/10/2004.

% Additional area to 3(1) Notification S.O.108(E) dated 31/01/2007.

& Additional area to 3(1) Notification S.O.66 dated 07/01/2008.

[F.No. L-14014/4/2006-G.P.]

K. K. SHARMA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2009

का.आ. 3069(अ).— भारत सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि, मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की आन्ध्रप्रदेश में संरचनाओं से देश के विभिन्न हिस्सों में उपभोक्ताओं तक प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए मैसर्स रिलायन्स गैस ट्रांसपोर्टेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा काकीनाडा - हैदराबाद - उरण - अहमदाबाद पाइपलाइन विछाई जानी चाहिए;

और, भारत सरकार को उक्त पाइपलाइन विछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसके भीतर उक्त पाइपलाइन विछाई जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना से उपावद्ध अनुसूची में वर्णित हैं, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः, अब, भारत सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उनमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा (3) की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना की प्रतियां साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के भीतर भूमि के नीचे पाइपलाइन विछाई जाने के लिए उपयोग के अधिकार के अर्जन के संबंध में श्री एस. डी. मिसे, सक्षम प्राधिकारी, रिलायन्स गैस ट्रांसपोर्टेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, 5 वीं मंजिल, उत्तर विभाग, सैक्रेड वर्ल्ड वानवडी पुणे - 411 040, महाराष्ट्र राज्य को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची				
मंडल/तहसील/तालुका : खंड	जिला : पुणे	राज्य : महाराष्ट्र		
गांव का नाम	सर्वे नंबर / गट नंबर	आर ओ यु जमिनी करने के लिए क्षेत्रफल		
		इक्वेटेर	एयर	क्वी. एयर
1	2	3	4	5
1) सावळेवाडी	230 (1523 जुना)	00	12	10
	231 (1524 जुना)	00	02	00
2) बहुल	258 (1250 जुना)	00	08	48
मंडल/तहसील/तालुका : शिरूर	जिला : पुणे	राज्य : महाराष्ट्र		
1) इनामगाव	480	00	10	40
	499	00	05	67
2) कोळगाव डोळस	100	00	14	66
मंडल/तहसील/तालुका : कर्जत	जिला : अहमदनगर	राज्य : महाराष्ट्र		
1) पिंपळवाडी	399	00	35	58
	864	00	35	60
मंडल/तहसील/तालुका : कर्जत	जिला : रायगड	राज्य : महाराष्ट्र		
1) बंडावणे	58/5अ1/2 ##	00	22	17
	154/2	00	38	65
	156/1अ/2	00	09	60
	156/2	00	33	00
	156/3क	00	26	55
	1/8	00	01	47
2) भालिवडी	48/3	00	12	82
	26/2	00	07	50
3) कडाव	101/1ब	00	06	00
	109अ/1	00	05	26
	109/2	00	24	00
	74/6	00	14	00
	70/2+4अ	00	19	20
4) गणेशवा विंचोली	10/4	00	09	00
5) सालवड	30/1 ####	00	27	00
	6/25	00	05	00
6) वाकन	83/13+24	00	70	00
	113/5	00	09	60
7) पिंपळोली बुदुक	129	00	15	00
	103/(14+21+22+23)1	00	04	59
8) तळवडे खुर्द	38/4अ/2	00	66	62
	78/4 ####	00	21	77
	77/1 ###	00	52	58
	37	00	01	40

1	2	3	4	5
9) दहिवली	33/4अ/1	00	07	40
	39/19	00	25	80
	39/20	00	19	20
10) विर्दोले	23/2 ####	00	21	93
11) मोहिली	14/4+2/ब	00	01	70
	14/4+2/क	00	12	67
	14/4+2इ	00	06	10
	14/4+2ई	00	07	88
12) निकोप	11/1ब	00	02	00
	11/2 #####	00	10	33
	11/5- #####	00	03	50
13) पाषाणे	153	00	05	55
	152/5 ###	00	21	40
मंडल/तहसिल/तालुका : अंबरनाथ		जिला : ठाणे		राज्य : महाराष्ट्र
1) करवाव	35/2अ	00	01	30
	35/2ब	00	03	53
	95/2	00	20	67
	95/2अ	00	11	70
	95/2ब	00	27	85
	95/2क	00	22	20
2) दापीवली	8/1/2	00	26	86
मंडल/तहसिल/तालुका : कल्याण		जिला : ठाणे		राज्य : महाराष्ट्र
1) आपटी	56 *****	00	81	45
2) मांजली	26/1	00	01	00
	9/5	00	04	00
3) वाघोली	15/2	00	05	40
	115/1	00	25	79
4) गोवेली	52/2	00	20	39
	49/1/3/2	00	12	77
5) रेवती	43	00	25	97
6) अकश्वर	83/1अ	00	03	00
	49/4/ब	00	20	50
7) टिटवाळा	66/पे	01	60	09
	65/2	00	09	76
	64/2	00	11	64
मंडल/तहसिल/तालुका : भिवंडी		जिला : ठाणे		राज्य : महाराष्ट्र
1) भादाणे	113/3 %	00	13	49
	113/4	00	04	90
	223/1अ	00	23	68
	223/1ब %	00	16	55
	223/1क %	00	01	73
	252 %	01	13	01
	114/7	00	04	00
	114/8	00	06	50

1	2	3	4	5
1) भादो (निरंतर)	135/2	00	02	00
	222/2 %	00	14	26
2) दलेपाडा	39/2	00	04	50
3) खलिग बुदुक	119/3	00	14	53
	118पे	00	07	50
	112 और 116-117	00	04	50
	106/1ब	00	01	42
	33/1	00	03	00
4) लप बुदुक	103/7	00	15	30
	92/7 %	00	69	12
5) किरकली	73 %	00	47	53
	25/9	00	06	30
	25/10	00	15	30
	25/14	00	07	50
	25/13	00	07	50
	25/21अ	00	10	28
	25/21ब	00	02	85
6) जांभिली	7पे	00	27	90
7) खरीकली	39/14	00	20	00
	39/20	00	20	00
	39/21	00	07	00
	39/26	00	04	25
	39/22	00	24	00
	58/4	00	05	40
	53	00	03	90
	37	00	03	53
8) दलेडे	7/25 %	00	02	13
9) दिघाशी	154/1+3/3	00	04	00
	13	00	27	23
	34/अ %	00	20	88
मंडरा/तदरिल/तामका : वाका	जिला : ठाणे			राज्य : महाराष्ट्र
1) घोणसई	87/ब	00	10	24
2) मुसारणे	525	00	12	16
	537	00	01	27
	541	00	04	93
	448	00	02	24
	437	00	03	35
	436	00	00	25
	434	00	07	55
	326	00	08	14
	325	00	01	23
	252	00	00	72
	262	00	01	21
	249	00	02	37

1	2	3	4	5
3) विचघर	178*	00	29	43
	191	00	07	47
	185	00	07	46
	188	00	18	71
4) डोंगले	6	00	01	54
	7	00	17	02
5) विलवली	193	00	00	20
	189	00	00	20
	201	00	50	45
	257	00	00	55
	368C	00	00	99
	432	00	00	12
	407	00	11	20
6) ग्रानिवली	114	00	01	38
	106	00	00	10
	201	00	00	24
7) अविस्त बुदुक	79	00	05	00
	68	00	05	01
8) ग्ररीवली	75/2	00	00	52
	76/2	00	09	90
	57/6	00	06	48
	49	00	01	30
	53	00	00	91
9) गाडे	76	00	01	88
10) कलमगांड	155	00	01	70
	197*	00	20	99
11) सुपोंडा	145	00	01	36
मंडल/तहसिल/तालुका : विजयपुर				राज्य : महाराष्ट्र
1) म्हरगली		00	54	02
2) शिळ		00	00	78
3) कांडगांव	135(4अ)	00	50	49
		00	04	97
		00	03	41
4) विलशेत	42 के बीच का नाला	00	10	32
मंडल/तहसिल/तालुका : डहाणू				राज्य : महाराष्ट्र
1) धानिवरे	27	00	58	59
	403	00	37	44
	297	00	50	71

1	2	3	4	5
2) चिंचले	डब्लू 25	00	10	70
	डब्लू 33	00	10	30
	32/9	00	03	01
	32/7	00	00	10
3) पुंजावे	57	00	00	78
4) पाडी	14	00	12	40
माला/तलासरी/तासुका इतलासरी	जिला : ठाणे			रकबा : मीटर
1) तलासरी	स.नं. 56 और 57 के बीच का नाला	00	26	67
2) वगवडे	166	00	04	83
	157	00	18	66
3) उपलाट	डब्लू 59	00	25	70
	728	00	01	40

का. आ. 2419(अ) दिनांक 01.10.2008 में 3(1) की अधिसूचना का अतिरिक्त क्षेत्रफल

का. आ. 1851 दिनांक 09.05.2006 में 3(1) की अधिसूचना का अतिरिक्त क्षेत्रफल

का. आ. 1332(अ) दिनांक 22.05.2009 में 3(1) की अधिसूचना का अतिरिक्त क्षेत्रफल

% का. आ. 636 दिनांक 23.02.2005 में 3(1) की अधिसूचना का अतिरिक्त क्षेत्रफल

* का. आ. 3039 दिनांक 28.11.2004 में 3(1) की अधिसूचना का अतिरिक्त क्षेत्रफल

[फा. सं. एल-14014/11/2007-जी.पी.]

के. के. शर्मा, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th November, 2009

S.O. 3069(E).—Whereas it appears to Government of India that it is necessary in public interest that for transportation of gas through pipelines and structures in Andhra Pradesh of M/s Reliance Industries Limited, the pipelines should be laid in various parts of the country, Kakinada – Hyderabad – Uran - ~~Andhra Pradesh~~ should be laid by M/s Reliance Gas Transportation Infrastructure Limited;

And whereas, it appears to Government of India that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in Land under which the said pipeline is proposed to be laid and which are described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (herein after referred to as the said Act), Government of India hereby declares its intention to acquire the Right of User therein;

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty-one days from the date on which the copies of the notification as published in the Gazette of India under sub-section (1) of Section 3 of the said Act, are made available to the general public, object in writing to the acquisition of Right of User therein for laying the pipeline under the land to Shri S. D. Bhise, Competent Authority, M/s Reliance Gas Transportation Infrastructure Limited, 5th Floor, North Block, Sacred world, Jagatap Chowk, Wanwadi, Pune- 411 040, Maharashtra State.

Schedule

Mandal/ Tehsil /Taluka: Khed		District: Pune		State : Maharashtra	
Village	Survey/Gat No.	Area to be acquired for RoU			
		Hectare	Are	C-Are	
1	2	3	4	5	
1) Sablewadi	230 (1523 Old)	00	12	10	
	231 (1524 Old)	00	02	00	
2) Bahul	258 (1250 Old)	00	08	48	
Mandal/ Tehsil /Taluka: Shirur		District: Pune		State : Maharashtra	
1) Inamgaon	480	00	10	40	
	499	00	05	67	
2) Kolgaon Dolas	100	00	14	66	
Mandal/ Tehsil / Taluka: Karjat		District: Ahmednagar		State : Maharashtra	
1) Pimpahwadi	399	00	35	58	
	864	00	35	60	
Mandal/ Tehsil /Taluka: Karjat		District: Raigad		State : Maharashtra	
1) Mandavane	58/5A1/2 ##	00	22	17	
	154/2	00	38	65	
	156/1A/2	00	09	60	
	156/2	00	33	00	
	156/3C	00	26	55	
	1/8	00	01	47	
2) Bhaitwadi	48/3	00	12	82	
	26/2	00	07	50	
3) Kadav	101/1B	00	06	00	
	109A/1	00	05	26	
	109/2	00	24	00	
	74/6	00	14	00	
	70/2+4A	00	19	20	
4) Ganegaon Chinchavali	10/4	00	09	00	
5) Salvad	30/1 ####	00	27	00	
	6/2D	00	05	00	
6) Vakas	83/13+24	00	70	00	
	113/5	00	09	60	
7) Pimpoli Budruk	129	00	15	00	
	103/(14+21+22+23)1	00	04	59	
8) Talavade Khurd	38/4A/2	00	66	62	
	78/4 ####	00	21	77	
	77/1 ###	00	52	58	
	37	00	01	40	

1	2	3	4	5
9) Dahiwali	33/4A/1	00	07	40
	39/19	00	25	80
	39/20	00	19	20
10) Birdole	23/2 ####	00	21	93
11) Mohili	14/4+2/B	00	01	70
	14/4+2/C	00	12	67
	14/4+2D	00	06	10
	14/4+2E	00	07	88
12) Nikop	11/1B	00	02	00
	11/2 ####	00	10	33
	11/5 ####	00	03	50
13) Pashane	153	00	05	55
	152/5 ###	00	21	40
Mandal/ Tehsil /Taluka: Ambarnath		District: Thane		State : Maharashtra
1) Karav	35/2A	00	01	30
	35/2B	00	03	53
	95/2	00	20	67
	95/2A	00	11	70
	95/2B	00	27	85
	95/2C	00	22	20
2) Dapivali	8/1/2	00	26	86
Mandal/ Tehsil /Taluka: Kalyan		District: Thane		State : Maharashtra
1) Api	56	00	81	45
2) Manjarli	26/1	00	01	00
	9/5	00	04	00
3) Vaholi	15/2	00	05	40
	115/1	00	25	79
4) Goyeli	52/2	00	20	39
	49/1/3/2	00	12	77
5) Revati	43	00	25	97
6) Ankhar	83/1A	00	03	00
	49/4/B	00	20	50
7) Titwala	66/P	01	60	09
	65/2	00	09	76
	64/2	00	11	64
Mandal/ Tehsil /Taluka: Bhiwandi		District: Thane		State : Maharashtra
1) Bhadane	113/3 %	00	13	49
	113/4	00	04	90
	223/1A	00	23	68
	223/1B %	00	16	55
	223/1/C %	00	01	73
	252 %	01	13	01
	114/7	00	04	00
	114/8	00	06	50

1	2	3	4	5
1) Bhadane (Contd....)	135/2	00	02	00
	222/2%	00	14	26
2) Dalhepada	39/2	00	04	50
3) Khaling Budruk	119/3	00	14	53
	118P	00	07	50
	112 & 116-117	00	04	50
	106/1B	00	01	42
	33/1	00	03	00
4) Lape Budruk	103/7	00	15	30
	92/7 %	00	69	12
5) Kiravali	73%	00	47	53
	25/9	00	06	30
	25/10	00	15	30
	25/14	00	07	50
	25/13	00	07	50
	25/21A	00	10	28
	25/21B	00	02	85
6) Jambivali	7P	00	27	90
7) Kharivali	39/14	00	20	00
	39/20	00	20	00
	39/21	00	07	00
	39/26	00	04	25
	39/22	00	24	00
	58/4	00	05	40
	53	00	03	90
	37	00	03	53
8) Dalonde	7/2D%	00	02	13
9) Dighashi	154/1+3/3	00	04	00
	13	00	27	23
	34/A%	00	20	88
Mandal/ Tehsil /Taluka: Wada		District:Thane		State : Maharashtra
1) Ghonsai	87/B	00	10	24
2) Musame	525	00	12	16
	537	00	01	27
	541	00	04	93
	448	00	02	24
	437	00	03	35
	436	00	00	25
	434	00	07	55
	326	00	08	14
	325	00	01	23
	252	00	00	72
	262	00	01	21
	249	00	02	37

	1	2	3	4	5
3) Chinchghar		178*	00	29	43
		191	00	07	47
		185	00	07	46
		188	00	18	71
4) Dongaste		6	00	01	54
		7	00	17	02
5) Bhiawali		193	00	00	20
		189	00	00	20
		201	00	50	45
		257	00	00	55
		368C	00	00	99
		432	00	00	12
		407	00	11	20
6) Khanivali		114	00	01	38
		106	00	00	10
		201	00	00	24
7) Amphiste Budruk		79	00	05	00
		68	00	05	01
8) Kharivali		75/2	00	00	52
		76/2	00	09	90
		57/6	00	06	48
		49	00	01	30
		53	00	00	91
9) Mande		76	00	01	88
10) Kalamkhand		155	00	01	70
		197*	00	20	99
11) Suponda		143	00	01	36
Mandal/ Tehsil /Taluka: Vikramgad		District: Thane		State : Maharashtra	
1) Mhasaroli		21	00	54	02
2) Shi		W12	00	00	78
3) Kondgaon		135(4A)	00	50	49
		58/1	00	04	97
		W-16	00	03	41
4) Vilshet	Nala Between Svy No. 6 &		00	10	32
		42			
Mandal/ Tehsil /Taluka: Dahanu		District: Thane		State : Maharashtra	
1) Dhanivari		27	00	58	59
		403	00	37	44
		297	00	50	71

1	2	3	4	5
2) Chinchale	W-25	00	10	70
	W-33	00	10	30
	32/9	00	03	01
	32/7	00	00	10
3) Punjave	57	00	00	78
4) Pardi	14	00	12	40
Mandal/ Tehsil /Taluka: Talasari		District: Thane		State : Maharashtra
1) Talasari	Between Survey No. 56 & 57	00	26	67
2) Varvade	166	00	04	83
	157	00	18	66
3) Uplat	W-59	00	25	70
	728	00	01	40

##Additional area to 3(1) Notification S.O.2419 (E) dated 01.10.2008

Additional area to 3(1) Notification S.O.185/ dated 09.05.2008

Additional area to 3(1) Notification S.O.1332 (E) dated 22.05.2009

% Additional area to 3(1) Notification S.O.636 dated 23.02.2005

* Additional area to 3(1) Notification S.O. 3039 dated 23.11.2004

[F. No. L-14014/11/2007-G.P.]

K. K. SHARMA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2009

का.आ. 3070(अ).—भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन), अधिनियम 1962 (1962 का 50) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1320(अ) तारीख 19 मई, 2009 द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में बैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की आन्ध्रप्रदेश में संरचनाओं से देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित उपभोक्ताओं तक प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए बैसर्स रिलायंस गैस ट्रांसपोर्टेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा एक पाइपलाइन विछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के लिए अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त राजपत्र की प्रतियाँ जनता को तारीख 22 जून, 2009 को अथवा उससे पूर्व उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, पाइपलाइन विछाने के सम्बन्ध में जनता की ओर से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ है;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और, भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन विछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन का विनिश्चय किया है;

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन विछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और, भारत सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से भारत सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विलिंगों से मुक्त, बैसर्स रिलायंस गैस ट्रांसपोर्टेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, में निहित होगा।

अनुसूची

मंडल/तहसील/तालुका : शिरूर		जिला : पुणे		राज्य : महाराष्ट्र	
गांव का नाम	सर्वे नंबर / गट नंबर	आर ओ यु अर्जित करने के लिये क्षेत्रफल			सी. एयर
		हेक्टेयर	एयर		
1	2	3	4		5
1) इनामगाव	534/1	00	16		80
	525/8	00	05		00
	58	00	27		32
	62/1	00	07		57
	62/2	00	04		85
	62/3	00	00		26
	64	00	00		06
	65/2	00	00		60
	62/4	00	07		50
	67/1अ	00	26		80
	68/1	00	00		30
	69/2	00	17		57
	347/2	00	03		20
	458/1ब/1	00	08		00
	457/1	00	00		14
	472/2ब	00	04		36
	472/1अ/2	00	00		07
	472/1अ/1	00	16		00
	475	00	16		97
	512	00	00		21
	10	00	10		38
2) पिंपळगुटी	75/2ब/1	00	01		40
	75/1	00	03		88
	74/2	00	35		34
	148	00	00		09
	144	00	01		44
	138/अ/3	00	01		49
	138/ब/2	00	00		50
	138/ब/3	00	21		18
3) शिर्गगांव काटा	138/अ/2	00	08		28
	137/4	00	02		98
	269/1	00	05		26
	114/4	00	41		10
	144/3	00	00		30
	170/1अ/1/1/2	00	12		00
	174/2	00	06		00

1	2	3	4	5
3) शिरसांव काटा (निरंतर)	185/1	00	12	73
	543	00	00	34
	136	00	05	20
	99	00	04	00
	250/1	00	37	20
4) कोळगाव डोळस	157	00	35	93
	161/1अ	00	03	75
	131/1ब	00	10	20
5) कोकडेवाडी	293/2	00	01	16
	314	00	00	17
	300/3	00	00	14
6) न्हावरे	699	00	01	00
	795/2	00	04	80
	780/2	00	08	95
	801	00	17	00
	767	00	00	17
	768	00	00	30
	794	00	12	33
	707	00	00	16
	796/1/3	00	06	00
	796/3	00	31	20
	796/1	01	35	20
7) उरळगाव	44	00	00	10
	63	00	00	34
	466	00	00	25
	469	00	00	35
	114/2	00	11	85
8) दहिवडी	314/1	00	00	50
9) टाकली भिमा	620	00	00	19
	617	00	09	54
	616/1	00	10	18
	615	00	00	24
	579/पे	00	00	08
	463/1	00	05	85
	415/1	00	19	76
10) कासारी	1136	00	01	00
	1138/1	00	01	34
	634	00	00	12
	1140/1	00	08	27

1	2	3	4	5
10) कामागि (निगंत)	1197	00	00	23
	1248	00	00	01
	1200/3	00	06	93
	1200/1	00	11	00
11) तळेगाव ढमढेरे	339	00	00	90
	331	00	00	34
	343	00	00	19
	345/1	00	02	43
	360	00	00	09
	390	00	00	31
	391	00	00	04
12) शिक्कापूर	1681/2	00	12	07
	1361	00	10	17
	1585	00	17	76
	1588	00	00	54
	1285/2	00	07	00
	1313/1व	00	02	00
	1313/2	00	02	19
	1597/4	00	37	00
	1599/3/अ	00	12	00
	1383	00	08	08
13) जातेगाव खुर्द	37	00	00	01
	92/1	00	13	12
14) करंदी	690	00	00	06
15) बाजेवाडी	357	00	00	28
	416	00	01	82
	422	00	06	07
	400	00	00	90
	398	00	01	01
	397	00	01	93
	388	00	00	57
	387	00	00	57
	385	00	00	31
	377	00	01	17
	376	00	00	92
	375	00	00	89
	373	00	01	32
	367	00	01	15
	361	00	01	29

1	2	3	4	5
15) वाजेवाडी (निरंतर)	353	00	00	39
	401	00	00	80
	421/1	00	06	17
	399	00	03	00
	418/2	00	03	30
	363	00	00	50

[फा. सं. एल-14014/48/2004-जी.पी.]

के. के. शर्मा, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th November, 2009

S.O. 3070(E).—Whereas by notification of Government of India in Ministry of Petroleum and Natural Gas, number S.O. 1320(E) dated the 19th May, 2009, issued under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), Government of India declared its intention to acquire the Right of User in the land, specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of natural gas from the structures in Andhra Pradesh of M/s Reliance Industries Limited by M/s Reliance Gas Transportation Infrastructure Limited to the consumers in various parts of the country;

And whereas, the copies of the said Gazette notification were made available to the public on or before ~~22nd~~ June, 2009;

And whereas, no objections were received from the public to the laying of the pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government of India;

And whereas, Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire the Right of User therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, Government of India hereby declares that the Right of User in the land, specified in the Schedule, appended to this notification, is hereby acquired, for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, Government of India hereby directs that the Right of User in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India vest, on this date of publication of the declaration, in M/s Reliance Gas Transportation Infrastructure Limited, free from all encumbrances.

Schedule

Mandal Tehsil / Taluka: Shirur		District: Pune		State : Maharashtra	
Village	Survey/Gat No.	Area to be acquired for R&U			C-Are
		Hectare	Are		
1	2	3	4		5
1) Inamgaon	534/1	00	16		80
	525/8	00	05		00
	58	00	27		32
	62/1	00	07		57
	62/2	00	04		85
	62/3	00	00		26
	64	00	00		06
	65/2	00	00		60
	62/4	00	07		50
	67/1A	00	26		80
	68/1	00	00		30
	69/2	00	17		57
	347/2	00	03		20
	458/1B/1	00	08		00
	457/1	00	00		14
	472/2B	00	04		36
	472/1A/2	00	00		07
	472/1A/1	00	16		00
	475	00	16		97
	512	00	00		21
	10	00	10		38
2) Pimpasuti	75/2B/1	00	01		40
	75/1	00	03		88
	74/2	00	35		34
	148	00	00		09
	144	00	01		44
	138/A/3	00	01		49
	138/B/2	00	00		50
	138/B/3	00	21		18
	138/A/2	00	08		28
3) Shirasgaon Kata	137/4	00	02		98
	269/1	00	05		26
	114/4	00	41		10
	144/3	00	00		30
	170/1A/1/1/2	00	12		00
	174/2	00	06		00

1	2	3	4	5
3) Shirasgaon Kata (Contd....)	185/1	00	12	73
	543	00	00	34
	136	00	05	20
	99	00	04	00
	250/1	00	37	20
4) Kolgaon Dolas	157	00	35	93
	161/1A	00	03	75
	131/1B	00	10	20
5) Kokadewadi	293/2	00	01	16
	314	00	00	17
	300/3	00	00	14
6) Nhavare	699	00	01	00
	795/2	00	04	80
	780/2	00	08	95
	801	00	17	00
	767	00	00	17
	768	00	00	30
	794	00	12	33
	707	00	00	16
	796/1/3	00	06	00
	796/3	00	31	20
	796/1	01	35	20
7) Uralgaon	44	00	00	10
	63	00	00	34
	466	00	00	25
	469	00	00	35
	114/2	00	11	85
8) Dahiwadi	314/1	00	00	50
9) Takli Bhima	620	00	00	19
	617	00	09	54
	616/1	00	10	18
	615	00	00	24
	579/P	00	00	08
	463/1	00	05	85
	415/1	00	19	76
10) Kasari	1136	00	01	00
	1138/1	00	01	34
	634	00	00	12
	1140/1	00	08	27

1	2	3	4	5
10) Kasar (Contd....)	1197	00	00	23
	1248	00	00	01
	1200/3	00	06	93
	1200/1	00	11	00
11) Talegaon Dhamdhare	339	00	00	90
	331	00	00	34
	343	00	00	19
	345/1	00	02	43
	360	00	00	09
	390	00	00	31
	391	00	00	04
12) Shikrapur	1681/2	00	12	07
	1361	00	10	17
	1585	00	17	76
	1588	00	00	54
	1285/2	00	07	00
	1313/1B	00	02	00
	1313/2	00	02	19
	1597/4	00	37	00
	1599/3/A	00	12	00
	1383	00	08	08
13) Jategaon Khurd	37	00	00	01
	92/1	00	13	12
14) Karand	690	00	00	06
15) Wajewadi	357	00	00	28
	416	00	01	82
	422	00	06	07
	400	00	00	90
	398	00	01	01
	397	00	01	93
	388	00	00	57
	387	00	00	57
	385	00	00	31
	377	00	01	17
	376	00	00	92
	375	00	00	89
	373	00	01	32
	367	00	01	15
	361	00	01	29

1	2	3	4	5
15) Wajewadi (Contd....)	353	00	00	39
	401	00	00	80
	421/1	00	06	17
	399	00	03	00
	418/2	00	03	30
	363	00	00	50

[F.No. L-14014/48/2004-G.P.]

K. K. SHARMA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2009

का.आ. 3071(अ).—भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन), अधिनियम 1962 (1962 का 50) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 873 तारीख 6 अप्रैल, 2009 द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में, मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की आन्ध्रप्रदेश में संरचनाओं से देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित उपभोक्ताओं तक प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए मैसर्स रिलायंस गैस ट्रांसपोर्टेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा एक पाइपलाइन विछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के लिए अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त राजपत्र की प्रतियाँ जनता को तारीख 22 अप्रैल, 2009 को अथवा उससे पूर्व उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, पाइपलाइन विछाने के सम्बन्ध में जनता की ओर से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ है;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और, भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन विछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन का विनिश्चय किया है;

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन विछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और, भारत सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से भारत सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगों से मुक्त, मैसर्स रिलायंस गैस ट्रांसपोर्टेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, में निहित होगा।

अनुसूची

मंडला/तहसिल/तालुका : सिरूर		जिला : पुणे		राज्य : महाराष्ट्र	
गांव का नाम	सर्वे नंबर / गट नंबर	आर.ओ.यु. अर्जित करने के लिये क्षेत्रफल			सी. एयर
		हेक्टेयर	एयर		
1	2	3	4		5
1) न्हावरे	798/1	00	27		35

[फा. सं. एल-14014/48/2004-जी.पी.]

के. के. शर्मा, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th November, 2009

S.O. 3071(E).—Whereas by notification of Government of India in Ministry of Petroleum and Natural Gas, number S.O. 873 dated the 6th April, 2009, issued under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), Government of India declared its intention to acquire the Right of User in the land, specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of natural gas from the structures in Andhra Pradesh of M/s Reliance Industries Limited by M/s Reliance Gas Transportation Infrastructure Limited to the consumers in various parts of the country;

And whereas, the copies of the said Gazette notification were made available to the public on or before 22nd April, 2009;

And whereas, no objections were received from the public to the laying of the pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government of India;

And whereas, Government of India, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire the Right of User therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, Government of India hereby declares that the Right of User in the land, specified in the Schedule, appended to this notification, is hereby acquired, for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, Government of India hereby directs that the Right of User in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India vest, on this date of publication of the declaration, in M/s Reliance Gas Transportation Infrastructure Limited, free from all encumbrances.

Schedule

Mandal/ Tehsil /Taluka: Shirur		District: Pune		State : Maharashtra	
Village	Survey/Gat No.	Area to be acquired for ROU			
		Hectare	Acre	C-Are	
1	2	3	4	5	
1) Nhavare	796/1	00	27	35	

[F. No. L-14014/48/2004-G.P.]

K. K. SHARMA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2009

का.आ. 3072(अ).—भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ.1853(अ) तारीख 27 जुलाई, 2009 द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मैसर्स रिलायन्स गैस ट्रांसपोर्टेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित उपभोक्ताओं तक प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए काकीनाडा-हैदराबाद-उसन-अहमदाबाद गैस पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आग्रह की घोषणा की थी;

और, उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 29 अगस्त, 2009 को अथवा उससे पहले उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, पाइपलाइन बिछाने के संबंध में जनता की ओर से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ है;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और, भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः, अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से भारत सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लिंगों से मुक्त, मैसर्स रिलायन्स गैस ट्रांसपोर्टेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, में निहित होगा।

4375 G/09-4

अनुसूची

तहसील : कन्नड	जिला : कन्नड	रामन : कन्नड		
ग्राम का नाम	खेत नंबर/ब्लॉक नं	आर.ओ.यु.अर्जित करने के लिये क्षेत्रफल		
1	2	हेक्टेयर	एकर	बे.मी
1. जुजवा	683	00	00	95

[फा. सं. एल-14014/40/2004-जी.पी.]

के. के. शर्मा, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th November, 2009

S.O. 3072(E).—Whereas by notification of Government of India in Ministry of Petroleum and Natural Gas number S.O. 1853(E) dated 27th July, 2009, issued under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), Government of India declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying Kakinada-Hydrabad-Uran-Ahmedabad gas pipeline for transportation of natural gas by M/s Reliance Gas Transportation Infrastructure Limited to consumers in various parts of the country;

And, whereas copies of the said Gazette notification were, made available to the public on or before 29th August, 2009;

And whereas, no objections were received from the public to the laying of the pipeline;

And whereas, the Competent Authority has, under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government of India;

And whereas, Government of India, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire the Right of User therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, Government of India hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, Government of India hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest, on the date of publication of the declaration, in M/s Reliance Gas Transportation Infrastructure Limited free from all encumbrances.

SCHEDULE

Tehsil : Valand		District : Valand		State : Gujarat	
Name of the Village	Survey No./Block No.	Area to be acquired for RoU			Sq.m
		Hectare	Are		
1	2	3	4		5
1.Jujwa	683	00	00		95

[F. No. L-14014/40/2004-G.P.]

K. K. SHARMA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2009

S.O. 3073(E). भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1982 (1982 का 50) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या क्र. आ. 1854(अ) तारीख 27 जुलाई, 2009 द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मैसर्स रिलायन्स गैस ट्रान्सपोर्टेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित उपयोक्ताओं तक प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए काकीनाडा-हैदराबाद-उरान-अहमदाबाद गैस पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त सज्जद अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 01 सितम्बर, 2009 को अथवा उससे पहले उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, पाइपलाइन बिछाने के संबंध में जनता की ओर से कोई आपत्त प्राप्त नहीं हुआ है;

और, सख्त प्रक्रिया ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और, भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, और यह स्नायमान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अर्पित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और, भारत सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से भारत सरकार में निहित होने के बजाए, सभी किल्लाओं से मुक्त, मैसर्स रिलायन्स गैस ट्रान्सपोर्टेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, में निहित होगा।

अनुसूची

तहसील : कलवाड	जि. ला. : कलवाड	राज्य : गुजरात		
गांव का नाम	सर्वे नंबर/ब्लॉक नं	आर.ओ.यु. अर्जित करने के लिये क्षेत्रफल		
1	2	हेक्टेयर	एयर	चौ.मी
1. नवेरा	893	00	02	47
	876	00	05	56
	877	00	01	07
	865/1	00	05	06
	867/1	00	01	44
	846	00	23	34
	739	00	43	06
2. अंजलाव	449	00	05	74
3. गाडरीया	1306	00	04	06
	1296	00	01	87
	1291/1	00	17	66
	1278	00	01	34
	1060	00	02	88
	1096/पे/1	00	08	46
	1096/पे/2	00	05	67
	1098	00	00	76
	1101	00	17	35
	1102	00	02	26
	1073	00	28	08
	1070	00	14	51
	1071	00	02	22
	1072	00	04	64
	1036	00	17	37
	1016/ब	00	47	54
4. काजणहरी	145	00	00	36
	146	00	02	37
5. ठक्करवाडा	315	00	02	60
	308	00	17	40
	301/पे/1	00	17	22
	335	00	04	38
	336	00	11	40
	334	00	14	49
	6	00	06	93
	9	00	14	30
	10	00	02	72
	14	00	07	71
	13	00	02	67
6. कलवाडा	500	00	05	00
	583	00	01	02

तहसील : बलसारा	जिला : बलसारा	राज्य : गुजरात		
गांव का नाम	सर्वे नंबर/ब्लॉक नं.	आर.ओ.पु. अंशित करने के लिये क्षेत्रफल		
		हेक्टर	एकर	बेघर
1	2	3	4	5
कमेववाडा	68	00	00	44
	132	00	02	39
	111	00	01	38
	109	00	02	50
	92	00	00	78
	297	00	03	91
8. फणसवाडा	210	00	28	42
	301	00	02	81
	310	00	04	46
	503	00	06	11
	485	00	08	55
	482	00	01	77
	387	00	02	55
	370	00	04	04
9. धनोरी	1085	00	05	51
	888	00	09	88
	968	00	21	62
	851	00	03	71
	855	00	01	90
	857	00	01	55
	856	00	02	01
	710	00	04	04
	709	00	04	71
	1340	00	22	07
10. तीवरा	233	00	03	40
	280	00	01	58
11. गोस्याम	231/1	00	09	70
12. वाघलभासा	409	00	23	18
	588	00	04	12
	122	00	02	60

[फा सं एल-14014/40/2004-जी.पी.]

के. के. शर्मा, अपर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th November, 2009

S.O. 3073(E).—Whereas by notification of Government of India in Ministry of Petroleum and Natural Gas number S.O. 1854(E) dated 27th July, 2009, issued under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), Government of India declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying Kakinada-Hydrabad-Uran-Ahmedabad gas pipeline for transportation of natural gas by M/s Reliance Gas Transportation Infrastructure Limited to consumers in various parts of the country ;

And, whereas copies of the said Gazette notification were, made available to the public on or before 01st September, 2009 ;

And whereas, no objections were received from the public to the laying of the pipeline ;

And whereas, the Competent Authority has, under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government of India ;

And whereas, Government of India , after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire the Right of User therein ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, Government of India hereby declares that the Right of User in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline ;

And, further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, Government of India hereby directs that the Right of User in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest, on the date of publication of the declaration, in M/s Reliance Gas Transportation Infrastructure Limited free from all encumbrances.

SCHEDULE

Tehsil : Valsad		District : Valsad		State : Gujarat	
Name of the Village	Survey No./Block No.	Area to be acquired for RoU			
		Hectare	Are	Sq.m	
1	2	3	4	5	
1.Navera	893	00	02	47	
	876	00	05	56	
	877	00	01	07	
	865/1	00	05	06	
	867/1	00	01	44	
	846	00	23	34	
	739	00	43	06	
2.Anjlav	449	00	05	74	
3.Gadriya	1306	00	04	06	
	1296	00	01	87	
	1291/1	00	17	66	
	1278	00	01	34	
	1090	00	02	88	
	1096/p/1	00	08	46	
	1096/p/2	00	05	67	
	1098	00	00	76	
	1101	00	17	35	
	1102	00	02	26	
	1073	00	28	03	
	1070	00	14	51	
	1071	00	02	22	
	1072	00	04	64	
	1036	00	17	37	
	1016/b	00	47	54	
4.Kanjanhari	145	00	00	36	
	146	00	02	37	
5.Thakkarwada	315	00	02	60	
	308	00	17	40	
	301/p/1	00	17	22	
	335	00	04	38	
	336	00	11	40	
	334	00	14	49	
	6	00	06	93	
	9	00	14	30	
	10	00	02	72	
	14	00	07	71	
	13	00	02	67	
6.Kalwada	500	00	05	00	
	583	00	01	02	

Tahsil : Valand	District : Valand	State : Gujarat		
Name of the Village	Survey No./Block No.	Area to be assigned for B.M.		
		Number	Area	Sq. m
1	2	3	4	5
Kachavala	68	00	00	44
	112	00	02	39
	111	00	01	38
	109	00	02	50
	92	00	00	78
	287	00	03	91
8. Fanaswada	210	00	28	42
	301	00	02	81
	310	00	04	46
	503	00	06	11
	485	00	03	85
	482	00	01	77
	367	00	02	55
	370	00	04	01
9. Dhanori	1095	00	05	51
	883	00	09	88
	906	00	21	02
	851	00	03	71
	855	00	01	90
	857	00	01	25
	856	00	02	01
	710	00	04	04
	709	00	04	71
	1340	00	22	07
10. Tighara	233	00	03	40
	230	00	01	58
11. Gorgam	281/1	00	09	70
12. Waghakhara	409	00	23	13
	583	00	04	12
	122	00	02	60

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2009

का.आ. 3074(अ).—भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 2115(अ) तारीख 11 अगस्त, 2009 द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मैसर्स रिलायन्स गैस ट्रांसपोर्टेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित उपभोक्ताओं तक प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए काकीनाडा-हैदराबाद-उरान-अहमदाबाद गैस पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 24 सितम्बर, 2009 को अथवा उससे पहले उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, पाइपलाइन बिछाने के संबंध में जनता की ओर से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ है;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और, भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः, अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से भारत सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लिंगमों से मुक्त, मैसर्स रिलायन्स गैस ट्रांसपोर्टेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, में निहित होगा।

अनुसूची

तहसील : झंसेट	जिल्ला : भद्रच	राज्य : गुजरात		
गांव का नाम	सर्वे नंबर/ब्लॉक नं	अर्जन के अर्जित करने के दिनांक के अनुसार		
		फरवरी	एप्रैल	मार्च
1	2	3	4	5
1. रोहीद	144	00	01	12
	135	00	19	20
2. वालनेर	534	00	09	99
3. शहेरा	296	00	08	05

तहसील : भुव	जिला : भुव	राज्य : गुजरात		
गांव का नाम	सर्वे नंबर/ब्लॉक नं	आर.ओ.यु.अर्जित करने के लिये क्षेत्रफल		
		हेक्टेयर	एयर	चौ.मी
1	2	3	4	5
1.भाडभुत	331/अ	00	21	68
	332	00	06	25
	174	00	00	72
	336	00	27	16
	337/पि 1	00	68	33
2.चोलाद	257/ब	00	47	85
तहसील : वागरा	जिला : भुव	राज्य : गुजरात		
गांव का नाम	सर्वे नंबर/ब्लॉक नं	आर.ओ.यु.अर्जित करने के लिये क्षेत्रफल		
		हेक्टेयर	एयर	चौ.मी
1	2	3	4	5
1.भेरसम	138	00	06	15

[फा. सं. एल-14014/54/2004-जी.पी.]

के. के. शर्मा, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th November, 2009

S.O. 3074(E).— Whereas by notification of Government of India in Ministry of Petroleum and Natural Gas number S.O. 2115(E) dated 11th August, 2009, issued under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), Government of India declared its intention to acquire the Right of User in the land, specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying Kakinada-Hydrabad-Uran-Ahmedabad gas pipeline for transportation of natural gas by M/s Reliance Gas Transportation Infrastructure Limited to Consumers in various parts of the country ;

And, whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public on or before 24th September, 2009 ;

And whereas, no objections were received from the public to the laying of the pipeline ;

And whereas, the Competent Authority has, under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government of India ;

And, whereas, Government of India, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipelines, has decided to acquire the Right of User therein;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, Government of India hereby declares that the Right of User in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipelines;

And, further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, Government of India hereby directs that the Right of User in the said land for laying the pipelines shall, instead of vesting in Government of India, vest, on the date of publication of the declaration, in M/s. Reliance Gas Transportation Infrastructure Limited, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Tehsil : Hansot		District : Bharuch		State : Gujarat	
Name of the Village	Survey No./Block No.	Area to be acquired for RoU			
		Hectare	Are	Sq.m	
1	2	3	4	5	
1.Rohid	144	00	01	12	
	135	00	19	20	
2.Walner	534	00	09	99	
3.Shahera	296	00	03	05	
Tehsil : Bharuch		District : Bharuch		State : Gujarat	
Name of the Village	Survey No./Block No.	Area to be acquired for RoU			
		Hectare	Are	Sq.m	
1	2	3	4	5	
1.Bhadbhut	331/A	00	21	68	
	332	00	06	25	
	174	00	00	72	
	336	00	27	16	
	337/P1	00	68	33	
2.Cholad	257/B	00	47	85	
Tehsil : Vagra		District : Bharuch		State : Gujarat	
Name of the Village	Survey No./Block No.	Area to be acquired for RoU			
		Hectare	Are	Sq.m	
1	2	3	4	5	
1.Bhersam	138	00	06	15	

[F. No. L-14014/54/2004-G.P.]

K. K. SHARMA, Under Secy.